

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 24] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 26, 1972/माघ 6, 1893

No. 24] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 26, 1972/MAGHA 6, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th January 1972

No. A. 21021/17/71-Ad. IIIB.—The President is pleased, on the occasion of Republic Day, 1972, to award an Appreciation Certificate for Specially Distinguished Record of Service to Shri Belakavadi Gopala Narayana Iyengar, Appraiser, Custom House, Bombay (at present on deputation to the Directorate of Revenue Intelligence).

2. The award is made under clause (a)(ii) of para 1 of the Scheme governing the grant of awards to the officers and staff of the Customs & Central Excise Departments, published in Part I, Section 1, of the Gazette of India Extraordinary Notification No. 12/139/59-Ad. IIIB, dated the 5th November, 1962, as amended from time to time.

M. G. ABROL, Jt. Secy.

विस्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 1972.

सं० ए० 21021/17/71-प्रशा० III ल.—राष्ट्रपति जी, गणतन्त्र दिवस, 1972 के अवसर पर श्री बेलकवाडी गोपाल नारायण आर्यंगर, मूल्यांकक, सीमाशुल्क गृह, बम्बई, (जो वर्तमान में राजस्व गुप्तचर्या निदेशालय में प्रतिनियुक्ति पर हैं) को उनकी अति विशिष्ट सेवाओं के लिए यह प्रशंसा प्रमाण-पत्र प्रदान करते हैं।

2. यह पुरस्कार, भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित, समय-समय पर यथा संशोधित, दिनांक 5 नवम्बर, 1962 की अधिसूचना सं० 12/139/59-ए० डी० III-बी में दी गई, सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कार स्वीकार किए जाने संबंधी योजना के पैराग्राफ 1 के खंड (क) (ii) के अधीन प्रदान किया जाता है।

एम० जी० अग्रोल, संयुक्त सचिव।